

उत्तराखण्ड शासन

भाषा विभाग

संख्या- /xxxix/13-01(सा0)/2012

देहरादून: दिनांक 28, मई, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप0 संख्या-32/xxxix/13-20(सा0)/2010, दिनांक 10 फरवरी, 2010 के क्रम में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति का श्री राज्यपाल पुनर्गठित किये जाने की निम्नानुसार एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) साधारण सभा-

- 1- अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, (राज्य के मुख्यमंत्री संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे)
- 2- उपाध्यक्ष भाषा विभाग के मंत्री का प्रभार यदि मुख्यमंत्री के ही नियंत्रणाधीन हो, तो उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, किन्तु यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है तथा मुख्यमंत्री से इतर भाषा विभाग के मंत्री होने की दशा में भाषा विभाग के मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
- 3- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- सदस्य निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- सदस्य निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
- 10- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
- 11- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, देहरादून।
- 12- सदस्य कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 13- सदस्य कुलपति, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 14- सदस्य वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 15- सदस्य प्रो0शेर सिंह बिष्ट, आचार्य, हिन्दी विभाग, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0परिसर, अल्मोड़ा।
- 16- सदस्य श्री भगवती प्रसाद नौटियाल, 1, हिमाद्री एवेन्यू, लेन

- 17- सदस्य श्री तारा दत्त त्रिपाठी, बी0-8, प्रगति विहार, रूप नगर छोटी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 18- सदस्य श्री सुरेश मंगगाई, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तकाशी।
- 19- सदस्य डॉ0 अरुणेश नीरन, देवरिया खास, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
- 20- सदस्य डॉ0आरती दुबे, एफ-110/16, शिवाजी नगर (6 नं0 बस स्टॉफ़ के निकट) भोपाल, मध्य प्रदेश।
- 21- सदस्य सचिव निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति-

- 1- अध्यक्ष मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2- कार्यकारी अध्यक्ष सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सदस्य उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, देहरादून।
- 7- सदस्य उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
- 8- सदस्य वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 9- सदस्य प्रो0शेर सिंह बिष्ट, आचार्य, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
- 10- सदस्य श्री भगवती प्रसाद नौटियाल, 1, हिमाद्री एवेन्यू, लेन नं0-6, जोगीवाला, देहरादून।
- 11- सदस्य श्री तारा दत्त त्रिपाठी, बी0-8, प्रगति विहार, रूप नगर छोटी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 12- सदस्य सचिव निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या- ⁴⁵⁶ (1)/xxxix/13-01(सा0)/2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त सदस्य, साधारण सभा, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।
- 6- समस्त सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।
- 7- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डी0एस0/गर्ब्याल)
सचिव।